



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 भाद्र, 1940 (श०)

संख्या- 831 राँची, सोमवार

27 अगस्त, 2018 (ई०)

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

24 अगस्त, 2018

संख्या-5/आरोप-1-46/2016-1774 (HRMS)-- श्री पंकज कुमार सिंह, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-870/03, गृह जिला-भागलपुर), निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, गिरिडीह के विरुद्ध उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-613/गो०, दिनांक 9 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया।

श्री सिंह के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में आरोप प्रतिवेदित किया गया कि श्री सिंह दिनांक 19 मार्च, 2016 से 27 मार्च, 2016 तक अवकाश अवधि का आवेदन देकर अपनी पत्नी का ईलाज हेतु आवकाश में गए। पुनः उनके द्वारा अवकाश विस्तार का आवेदन पत्र दिया गया, जिस कारण भू-अर्जन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। श्री सिंह से स्पष्टीकरण माँगने के बावजूद स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। श्री सिंह का उक्त आचरण उच्चाधिकारियों के आदेश/निर्देश का उल्लंघन, कर्तव्यहीनता, सरकारी कार्यों के सम्पादन में लापरवाही एवं सरकारी पदाधिकारी के निर्धारित दायित्वों के निर्वहन में अक्षमता परिलक्षित करता है।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-4576, दिनांक 31 मई, 2016 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में श्री सिंह ने अपने पत्रांक-1068, दिनांक 27 जून, 2016 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री सिंह के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-6605, दिनांक 29 जुलाई, 2016 द्वारा उपायुक्त, गिरिडीह से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-138/गो०, दिनांक 3 फरवरी, 2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री सिंह के स्पष्टीकरण को

स्वीकार करते हुए भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होने की चेतावनी के साथ समर्पित स्पष्टीकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का मंतव्य दिया गया ।

श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, गिरिडीह से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत, श्री पंकज कुमार सिंह, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-870/03, गृह जिला-भागलपुर), निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, गिरिडीह को भविष्य में सचेत रहने हेतु चेतावनी देते हुए मामले को निष्पादित किया जाता है ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	PANKAJ KUMAR SINGH BHR/BAS/3853	श्री पंकज कुमार सिंह, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-870/03), निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, गिरिडीह को भविष्य में सचेत रहने हेतु चेतावनी देते हुए मामले को निष्पादित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**सतीश कुमार जायसवाल,**  
सरकार के संयुक्त सचिव।  
जीपीएफ संख्या:ROH/RVP/1007

-----